

## डेली करंट अफेयर्स क्विज - 17 अक्टूबर 2022

### प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किस देश ने GLONASS-K नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया है?

- A) चीन
- B) जापान
- C) रूस
- D) USA

**सही उत्तर: C**

रूस ने रूसी ग्लोनास रेडियो-आधारित उपग्रह नेविगेशन प्रणाली के एक हिस्से के रूप में GLONASS-K नेविगेशन उपग्रह को ले जाने वाले अपने सोयुज-2.1 बी रॉकेट का प्रक्षेपण किया।

### प्रश्न -2

निम्नलिखित में से किसने अस्ताना ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है?

- A) कार्लोस अलकाराज़
- B) नोवाक जोकोविच
- C) राफेल नडाल
- D) रोजर फेडरर

**सही उत्तर: B**

नोवाक जोकोविच ने फाइनल में स्टेफानोस सितसिपास को 6-3, 6-4 से हराकर 2022 अस्ताना ओपन में एकल टेनिस खिताब जीता।

### प्रश्न -3

निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला 1 होंडा जापानी ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता?

- A) कार्लोस सैन्ज़ो
- B) जॉर्ज रसेल
- C) मैक्स वेरस्टैपेन
- D) सर्जियो पेरेज़

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 17 अक्टूबर 2022

**सही उत्तर: C**

रेड बुल ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन ने फॉर्मूला 1 होंडा जापानी ग्रांड प्रिक्स 2022 जीत लिया है।

### प्रश्न -4

निम्नलिखित में से किसने J&T बांका ओस्ट्रावा ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीता?

- A) एनेट कॉटेविट
- B) बारबोरा क्रेजसिकोवा
- C) डारिया कसाटकिना
- D) मारिया सककारिक

**सही उत्तर: B**

चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजसिकोवा ने पोलैंड की इगा स्विएटेक को हराकर महिला एकल टेनिस J&T बांका ओस्ट्रावा ओपन 2022 जीता।

### प्रश्न -5

विश्व डाक दिवस कब मनाया गया?

- A) 10 अक्टूबर
- B) 09 अक्टूबर
- C) 08 अक्टूबर
- D) 07 अक्टूबर

**सही उत्तर: B**

विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को डाक उद्योग में काम करने वालों के काम का सम्मान करता है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 17 अक्टूबर 2022

### प्रश्न -6

विभिन्न विभागों में चल रही और आगामी सभी परियोजनाओं पर नज़र रखने के लिए किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने एक ऐप लॉन्च किया?

- A) महाराष्ट्र
- B) जम्मू और कश्मीर
- C) गुजरात
- D) दिल्ली

**सही उत्तर: D**

सभी विभागों में चल रही और आने वाली परियोजनाओं पर नज़र रखने के लिए, दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली ई-मॉनिटरिंग' नामक एक ऐप लॉन्च किया है।

### प्रश्न -7

भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI) के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया?

- A) कमलेश बजाज
- B) नंदकुमार सरवदे
- C) राम वेदश्री
- D) विनायक गोडसे

**सही उत्तर: D**

भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI) ने विनायक गोडसे को 1 अक्टूबर, 2022 से नए CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की।

### प्रश्न -8

किस देश के मोहम्मद रिजवान ने सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता?

- A) पाकिस्तान
- B) बांग्लादेश
- C) अफगानिस्तान
- D) श्रीलंका

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 17 अक्टूबर 2022

**सही उत्तर: A**

पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने पुरुष वर्ग में सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता।

### प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किसने महिला वर्ग में सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता?

- A) दीप्ति शर्मा
- B) हरमनप्रीत कौर
- C) स्मृति मंधाना
- D) राधा यादव

**सही उत्तर: B**

भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने महिला वर्ग में सितंबर-2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता।

### प्रश्न -10

निम्नलिखित में से किसने जूलियस बेयर जनरेशन कप जीता?

- A) मैग्नस कार्लसन
- B) लेवोन एरोनियन
- C) डिंग लिरेन
- D) अनीश गिरि

**सही उत्तर: A**

ग्रेंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने भारतीय ग्रेंड मास्टर (GM) अर्जुन एरिगैसी को हराकर जूलियस बेयर जनरेशन कप जीता है।